



[kkrk [kkyus dk QkeZ rFkk I k>nkjh
[kkrs dk vf/kdkj
**ACCOUNT OPENING FORM & AUTHORITY
FOR PARTNERSHIP ACCOUNT**

(क) खाता संख्या स्थान
(a)Account No. Place
दिनांक
Date

प्रबंधक
The Manager,

i at kc , .M fl ak cfd
PUNJAB & SIND BANK

.....शाखा/Branch

प्रिय महोदय,
Dear Sir,

हम अद्योगस्ताक्षरित.....
(साझेदारों के पूरे नाम)

साझेदारी के रूप में.....का व्यापार कर रहे हैं।
व्यवसाय

जो की मैसर्स.....के नामाधीन हैं।
(नाम तथा पता)

We the undersigned.....
(Full Name of the partners)

..... are

carrying on business in co-partnership as
(Occupation)

Under the name style of Messrs.....
(Name & Address)

(क) चालू खाता नकद उधार
अथवा मियदी जमा खाता
जैसी भी स्थिति हो।

आप से अनुरोध है कि आप मैं
.....नामक उक्त फर्म का खाता खोलें/जारी रखें।
hereby request you to open/continue a(a) account for us in the name of
the said firm Messrs.....

(b) Current Cash Credit or
fixed Deposit as the
case may be

हम घोषित करते हैं कि उक्त फर्म में साझेदार/सदस्य हैं तथा इसी नाम से अथवा इसके अतिरिक्त
.....नाम से भी या कहीं और भी व्यापार करते हैं।

We hereby declare that we are the partners or members of the said firm and carry on
business in the similar other names at
..... and elsewhere.

(ख) कोई एक दो अथवा अधिक साझेदार अथवा प्रबंधक अथवा यथास्थिति नाम/नामों का उल्लेख यदि अनिवार्य हो

हम आपसे अनुरोध करते हैं तथा आपको अधिकार देते हैं कि आप हमारे समस्त काटे हुए चेक अथवा अन्य दिए गये आदेश अथवा तैयार किये (बैंक) नोटरुअथवा स्वीकृति बिल अथवा फर्म को बैंक द्वारा दी गई अधार धन राशि की रसीद जो कि फर्म के प्राधिकार पर 'ख' द्वारा हस्ताक्षरिक हो, फर्म के निमित्त सकार सकते हो। आप ऐसे समस्त चैक, आर्डर, बिल, नोटिस, रसीद हमारी फर्म मे खात/खातों के नाम डाल सकते हो, भले ही वह कुछ समय के लिए इनमें जमा शेष हो अथवा आहरित अथवा इस निकासी के बाद ही आहरित हो जाए तथा हम सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी भी आहरित-सूद तथा अन्य बैंक के खर्चों के लिए उत्तरदायी होंगे।

We request and authorise you to honour all cheques or other orders which may be drawn or bills accepted or notes made or receipts for moneys owing you to the firm signed by (b)

(b) Any one, two or more of the partners or manager or as the case may be (name/s to be mentioned if necessary.

on behalf of the firm and to debit such cheques, orders bill notes and receipts to the firm's account or accounts with you whether such account or accounts be for the time being in credit or overdrawn or may become overdrawn in consequence of such debit and we will be jointly and severally responsible for the repayment of any such overdraft interest and other bank charges.

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि उपर्युक्त खाते में हमारे/आपके द्वारा देय राशि की पावती के लिए जमा राशि पुष्टि-पत्र जो कि हमने किसी एक द्वारा या हमारे कथित प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित हो, (फर्म के विलय के दौरान अथवा समापन से पूर्व तथा पश्चात् साझेदारों को पृथक-पृथक रूप से) फर्म को स्वीकार्य होगा।

We also request you to accept balance confirmation letters signed by any one of us or our said manager for acknowledgement of the balance due to or by you on the above account. These confirmation letters signed by any one of us or our said manager will be binding on the firm (before and after its dissolution and during winding up, as well as on all the partners severally).

इसके अतिरिक्त हम यह भी घोषित करते हैं कि श्री को अधिकार है कि वह प्रदत्त धनराशि, चैक, नोट्स, ड्राफ्ट आदेश तथा अन्य समस्त कागजात जो कि हमारे उक्त खाते/खातों में जमा करवाने हेतु हैं और हमारी अधिप्राप्ति के लिए या हमारी ओर से आवश्यकतानुसार उनको पृष्ठांकन करने का भी अधिकार है। समय-समय पर हमारे प्रतिनिधि के रूप में, खाते/खातों की शुद्धि को प्रमाणित करने तथा चैक व अन्य वाऊचरों की प्राप्ति के लिए भले ही खाता जमा में हों या आहरित हो अथवा हमारे उक्त खाते/खातों से संबंधित अन्य प्रतिभूति/प्रतिभूतियों के भुगतान शेयर, स्टॉक आदि का अन्य पक्ष को भुगतान लेकर अथवा बिना भुगतान सपुर्द करने के आदेश देने (बिना यह समझे कि खाते/खाता इन निकासियों की स्वीकृति देता है या नहीं) का भी अधिकार है।

We further declare that Mr. is also authorised to pay money, cheques, notes, drafts order & all other documents to the credit of our said banking account or accounts and when needful to endorse the same procuration for us or on our account & from time to time on our behalf to certify the correctness of the banking account or accounts, whether in credit or overdrawn to receive cheques and other vouchers relating thereto and to receive or to issue instructions for delivery to third parties with or without payment, shares, stocks or any other security or securities relating to our said account or accounts not withstanding the fact that the position of the said account or accounts allows or does not allow their withdrawal.

फर्म के किसी भी साझेदार की मृत्यु के कारण अथवा वैसे ही सदस्यता से हट/छोड़ जसपे पर, हमारे/हममें से किसी एक द्वारा लिखित नोट्स की अनुपस्थिति में आप उत्तरजीवी अथवा अनवरत साझेदारों या साझेदार अथवा अन्य साझेदार/साझेदारों को फिलहाल पूर्ण अधिकार सम्पन्न जाये तो कि फर्म का व्यापार तथा आस्तियों का लेन-देन यह स्वतंत्र रूप से कर सकें जैसे कि फर्म में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ है।

Upon any partner ceasing to be a member of the firm by death or otherwise you may in absence of written notice from us or any one of us treat the surviving or continuing partners or partner or other partners or partner for the time being as having full power to carry on the business of the firm and deal with its assets as freely as if there had been no change in the firm.

फर्म के नाम या इसके संविधान में परिवर्तन आने के बावजूद यह प्राधिकार तब तक कार्यशील रहेगा जब तक कि हममें से कोई एक इसको रद्द न कर दे तथा यह प्राधिकार मृत्यु के कारण, दीवालिया हो जाने पर, सेवा निवृत्त या अन्य कारणों से या नये साझेदार/साझेदारों की प्रविष्टि पर भी लागू रहेगा।

This authority shall remain in force until revoked in writing by any one of us notwithstanding any change in the constitution or name of the firm and shall apply notwithstanding any change in the membership of the firm by death, bank-ruptcy, retirement or otherwise or the admission of any new partner and partners.

हम वचन देते हैं कि जब कभी भी हमारी साझेदारी में कोई परिवर्तन होगा तो हम इसकी लिखित सूचना बैंक को देंगे। जब तक बैंक से इसकी पावती नहीं मिल जाती, हमारा बैंक के प्रति व्यक्तिगत दायित्व यथावत् बना रहेगा और जब तक हमारी बैंक के प्रति समस्त देयताओं का भुगतान नहीं हो जाता।

Whenever any change occurs in our partnership, we undertake to inform the Bank of the same in writing and our individual responsibility to the Bank will continue, until, all our liabilities with the Bank are discharged.

कृपया उस धारा को काट दें जो अनावश्यक हो तथा हस्ताक्षर करें।
(Please delete the clause which not required and sign.)

1. (क) हम यह घोषित करते हैं कि हमारी फर्म पंजीकृत नहीं है।
 - (a) We hereby declare that ours is not a registered firm.
 - (ख) हमारी फर्म पंजीकृत है तथा पंजीकरण के कार्यालय की संबंधित प्रविष्टि की एक प्रति संलग्न है।
 - (b) Ours is registered firm and we enclose a copy of the relative entry in the office of the Registrar of Firms.

कृपया उस धारा को काट दें जो अनावश्यक हो तथा हस्ताक्षर करें।
(Please delete the clause which not required and sign.)

2. (क) हम यहां घोषित करते हैं कि हमसे अब तक कोई भी लिखित साझेदारी बिलेख कार्यान्वित नहीं है तथा हम वचन देते हैं कि जब कभी यह कार्यान्वित होगा तो बैंक को भी इसकी एक प्रति गीजवा दी जायेगी।
 - (a) We hereby declare that there is no written partnership deed executed amongst us so far and we undertake to furnish one to the bank as and when it is executed.
 - (ख) कार्यान्वित साझेदारी की एक सत्य प्रति संलग्न है।
 - (b) We enclose a true copy of the partnership deed executed amongst us.
 - (ग) हम यहां घोषित करते हैं कि हमने लिखित साझेदारी प्रलेख कार्यान्वित है परन्तु हम उनके विषय को प्रकट नहीं करना चाहते। फिर भी हम अभिपुष्टि करते हैं कि हमारे उक्त प्रलेख में दी गई शर्तों में कोई असंगतता नहीं है।
 - (c) We hereby declare that a written partnership deed has been executed amongst us but we do not want to disclose its contents. We however, affirm that there is nothing in the said deed repugnant to the stipulations we have made therein.

(घ) तथा मैंने/हमने किसी भी अन्य बैंक/आपके बैंक की किसी अन्य शाखा से ऋण प्राप्त नहीं किये हुए हैं तथा आपको विश्वास दिलाते हैं कि मैं/हम जैसे ही आपकी किसी अन्य शाखा/किसी अन्य बैंक से ऋण प्राप्त करेंगे, आपको इसकी लिखित रूप में सूचना देंगे।

(d) "that, I/We, am/are not enjoying any credit facility with other bank/any branch of your bank and I/We undertake to inform you in writing as soon as any credit facility is available of by me/us from any other bank/any other branch of your bank."

तथा मैंने / हमने आपकी अन्य शाखा/शाखाओं से ऋण लिया हुआ है जिसकी सूचीसंलग्न है।

"that, I/We, am/are enjoying credit facility with other branch(es) of your bank as per details given in the enclosed sheet."

हम ऐसे खातों को चलाने के लिए उन सभी नियमों के अनुपालन करने को बाध्य तथा सहमत हैं जो समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

We agree to comply with and be bound by the Bank's Rules from time to time in force for the conduct of such account.

खाता का शीर्षक
Title of Account.....

भवदीय,
Yours faithfully,

पूरा नाम व्यवसाय तथा साझेदारों के पते
Name in Full, occupation and
address of partners

हस्ताक्षर/Signature

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

परिचयकर्ता
Introduced by

हस्ताक्षर (Signature)

पता
Address

.....

.....

<p>खाता खोला जाए Open the Account</p> <p>.....</p> <p>लेखाकार/प्रबंधक Accountant/Manager</p>
--

नमूना के हस्ताक्षर
SPECIMEN SIGNATURES

.....
.....
.....

xkgd #ij[kk CUSTOMER PROFILE

शाखा कार्यालय / Branch Office :

शाखा सं. : खाता खोलने का तिथि :

Account No. Date of Opening

नाम / फर्म का नाम / कंपनी का नाम :
Name/Firm Name/Company Name

योग्यता (शैक्षणिक / व्यवसायिक) :
Qualification (Educational/Professional)

स्थानीय पता / व्यावसायिक पता :
Local Address/Business Address

स्थायी पता :
Permanent Address

दूरभाष : निवास..... कार्यालय.....
Telephone No. Residence Office

आवासीय स्थिति (घरेलू / अनिवासी भारतीय) :
Residential Status (Domestic/NRI)

नियोक्ता का नाम व पता, यदि है तो :
Name and address of the Employer, if any

तथा सेवा अवधि / Length of service :

खाता खोलने का उद्देश्य :
Purpose of opening the Account

खाते में अपेक्षित गतिविधि होने की संभावना :
(मासिक / वार्षिक बिक्री)
Potential Activity expected in the account
(Monthly/Annual turnover)

आय का स्रोत :
Source of funds

आय विवरण: 1.0 लाख रुपये से नीचे, 1.0 लाख
से लेकर 3.0 लाख व 3.0 से ऊपर

Income Details : Below Rs. 1.0 Lac to 3.0 Lac and above 3.0 Lac.

चल व अचल संपत्ति का विवरण : (स्वयं का घर / वाहन आदि)
Details of Movable and Immovable Property : (Such as own House/Vehicle etc.)

पता : अनुमानित मूल्य :

Address Estimated Value

वाहन : कार / स्कूटर मॉडल अनुमानित मूल्य :
Vehicle: Car/Scooter Model Estimated Value

खाते का वर्गीकरण (उच्च जोखिम / निम्न जोखिम)* :
Classification of account as (High Risk/Low Risk)*

खाते खोलने वाले अधिकारी की राय :
(जोखिम वर्गीकरण के लिए भी संक्षिप्त सांकेतिक कारण)
Observation of the official opening the Account
(Brief indicate reason for risk classification also)

ग्राहक के हस्ताक्षर / Signature of the Customer

- उच्च जोखिम : प्रारंभिक सीमा को पार करते हुए ग्राहक के लेन-देन
- निम्न जोखिम : पेशानों के खाते, प्राथमिकता क्षेत्र / माइक्रो क्रेडिट-खाते विशेष तौर पर सरकारी प्रायोजित स्कीमों जैसे- एस.जी.एस.वाई., डी.आर. आई., पी.एम.आर.वाई. इत्यादि के अंतर्गत बांटी जाने वाली निधियों के लिए खोले गए खाते।
- High Risk : Customer transaction crossing threshold limit.

- Low Risk : Pensioner's Account, Priority Sector/Micro Credit-Accounts specially opened for disbursing funds under Government Sponsored Scheme such as SGSY, DRI, PMRY, etc.

0; ol kf; d #ijs[kk BUSINESS PROFILE

(प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए/भरा जाए और ग्राहक व अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)
(To be verified/filled in by the authorized Officer and Signed by Customer and Officer)

व्यवसाय की भौगोलिक अवस्थिति :
Geographical location of the business

व्यवसाय की प्रकृति/गतिविधि :
Nature/Activity of Business Occupation

अनुमानित आय :
Estimated Income

आय का कोई अन्य स्रोत :
Any other source of Income

कुल वार्षिक आय : 1.0 लाख से नीचे, :
1.0 लाख से 3.0 लाख तक
व 3.0 लाख रुपये से ऊपर
Total Annual Income: Below Rs. 1.0 Lac,
1.0 Lac to 3.0 Lac and above 3.0 Lac

चल और अचल आस्तियों का अनुमानित मूल्य :
Approximate value of movable and
Immovable assets

मौजूदा बैंक खातों यदि कोई है तो, उस का विवरण :
Details of existing bank account, if any

प्राप्त ऋण – सुविधाओं का विवरण, यदि कोई है तो :
Details of Credit Facilities, if any, availed

पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश भ्रमण का विवरण, यदि कोई है तो
Details of foreign countries visited, if any, during the last three years.

.....
.....
.....
.....

ग्राहक के हस्ताक्षर
Signature of the Customer

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of authorized officer
शाखा कार्यालय/Branch Office